



**राजस्थान राज-पत्र
विशेषांक**

साआधिकार प्रकाशित

**RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary**

Published by Authority

भाद्र 5, मंगलवार, शाके 1941 अगस्त 27, 2019

Bhadra 5, Tuesday, Saka 1941—August 27, 2019

भाग 6 (क)

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

**LOCAL SELF GOVERNMENT DEPARTMENT
ORDER**

Jaipur August 14, 2019

F.10 (Elec) LSG/19/ 7449 .-In exercise of powers conferred under Section 6 and 10 of the Rajasthan Municipality Act, 2009 and Rule 3 of Rajasthan Municipal (Election) Rules, 1994 Chief Municipal officer Municipal Board Rawatbhata has sent draft order of the ward formation and objections received on draft order with his comments regarding Municipal Board Rawatbhata. After considering objections on the draft order of the ward formation, State Government agrees with comments of Chief Municipal officer and approves the draft order of ward formation as proposed by Chief Municipal officer.

**By Order,
Ujjwal Rathore,
Joint Secretary to Governement.**

कार्यालय नगरपालिका रावतभाटा, जिला—चित्तौड़गढ़(राज0)

—:: प्रपत्र—क ::—

वर्तमान		प्रस्तापित	
वार्ड संख्या	अधिसूचना के अनुसार वार्ड की सीमाओं का विवरण	वार्ड संख्या	सीमाएं
1 अनुसूचित जाति	उत्तर दिशा में जी.एस.एस. के सामने से चम्बल नदी किनारे होते हुए , नहर के पश्चिमी भाग रावतभाटा राजस्व ग्राम की सीमा होते हुए , डेम तक एवं डेम से होते हुए , नहर किनारे मण्डेसरा बस स्टेण्ड होते हुए अंहिसा सर्किल होते हुए ,रावतभाटा कोटा मुख्य मार्ग होते हुए, शिव कॉलोनी जी.एस.एस. के सामने तक , जिसमें शिव कॉलोनी , जावरा सरकारी समिति के पास की आबादी , जोगणिया माता मंदिर के पास की आबादी , दशहरा मैदान के पास की आबादी , बंगाली विलनिक के पास की आबादी , डीजल पॉवर हाउस के पास की आबादी सम्मिलित है ब्लॉक 1 व 2 का सम्पूर्ण भाग	1	उत्तर दिशा में जी.एस.एस. के सामने से चम्बल नदी किनारे होते हुए , नहर के पश्चिमी भाग रावतभाटा राजस्व ग्राम की सीमा होते हुए , शिव कॉलोनी जी.एस.एस. के सामने तक , जोगणिया माता मंदिर के पास की आबादी , दशहरा मैदान के पास की आबादी अग्रवाल रिसोर्ट से सोनी टायर वाली गली से नहर तक ।
		2	उत्तर दिशा में वन विभाग चौकी से नारायण पुरी आश्रम होते हुए चामला तक डेम से होते हुए , नहर किनारे मण्डेसरा बस स्टेण्ड होते हुए , अंहिसा सर्किल होते हुए , जावरा सरकारी समिति के पास की आबादी , बंगाली विलनिक के पास की आबादी , डीजल पॉवर हाउस के पास की आबादी सम्मिलित है एवं मण्डेसरा चौराहे होते हुए दिलीप जी

				वधवा के मकान पिछे वाली गली में हेमराज जी वधवा के मकान होते हुए शम्मी जी के मकान होते हुए उत्तर दिशा में मण्डेसरा चौराहे तक
		3		उत्तर दिशा में पेट्रोल पम्प होते हुए अंहिसा सर्किल होते हुए गांधी सागर मार्ग नाले का पश्चिमी भाग एवं तेजाजी महाराज मंदिर के पास का सम्पूर्ण क्षेत्र एवं अकील भाई के मकान से पेट्रोल पम्प तक।
		4		उत्तर दिशा में अकील भाई के मकान से ईदगाह रोड होते हुए आगंनबाड़ी केन्द्र के सामने वाला सम्पूर्ण ऐरिया, इमामबाड़ा के आस पास की सम्पूर्ण बस्ती, रामपुरा मोहल्ला।
2	उत्तर दिशा में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के पास से रावतभाटा कोटा रोड होते हुए, अंहिसा सर्किल गणेश मंदिर से मण्डेसरा बस स्टेप्ड के पूर्वी भाग श्रीराम मंदिर के आगे रोड होते हुए, पुरानी नगरपालिका भवन के पास से होते हुए, मुख्य मार्ग रावतभाटा कोटा होते हुए, मस्जिद के पास गोल्डन जेरोक्स के पास से होते हुए, डॉक्टर इकबाल के मकान से होते हुए, आर्दश नगर होते हुए, ईदगाह के पास होते हुए, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के पास रावतभाटा कोटा मुख्य मार्ग तक। जिसमें अनोखे हनुमान जी मंदिर के पास की बस्ती, आंशिक रामपुरा मोहल्ला एवं आंशिक आर्दश नगर कॉलोनी सम्मिलित है। ब्लॉक 3,4,5,6 का सम्पूर्ण भाग	5	उत्तरी दिशा में सुलभ कॉम्प्लेक्स से जनता मटन हाउस के पीछे का सम्पूर्ण भाग होते हुए डॉ इकबाल साहब के मकान तक एवं नाले का दक्षिण भाग का सम्पूर्ण क्षेत्र एवं मस्जिद के सामने शरीफ मोहम्मद जी के मकान से हरिश छाबड़ा, राठोर स्वीट्स होते हुए खानदेशी मोहल्ला की गली नं. 2 होते हुए खादीघर से गणेश मंदिर तक।	
		6		उत्तर दिशा में अंहिसा सर्किल गणेश मंदिर होते हुए मण्डेसरा बस स्टेप्ड तक बस स्टेप्ड से पुरानी नगरपालिका भवन तक व हाट चौक बाजार से ऋषि लाल जी छावड़ा की दुकान होते हुए गणेश मंदिर तक एवं आरएपीपी बस स्टेप्ड प्याउ से गणेश डेयरी से शिव सिंह चौहान की दुकान होते हुए अशोक मेडिकल राठोड बुट हाउस से आरएपीपी बस स्टेप्ड तक और हाट चौक का उत्तरी-पूर्वी सम्पूर्ण क्षेत्र।
3	उत्तर दिशा में गुरु नानक विलनिक से दादी अम्मा लॉज के पास कलाली गली से होते हुए, पुलिया तक तथा पुलिया से पूर्व के मार्ग पर भवाना झाईवर के मकान के पास रावतभाटा, गांधी सागर रोड होते हुए, नियाज होटल होते हुए, गुरु नायक विलनिक तक जिसमें नियाज होटल के पास बस्ती, हाट चॉक, खानदेशी मोहल्ला, हम्माल मोहल्ला, जीवाजी विलनिक के पास की बस्ती सी.के.एस.बी. पुराना बैंक के पास की बस्ती सम्मिलित है।	7	उत्तर दिशा में खादी भण्डार वाली गली में नियाज जी के मकान होते हुए ऐजाज कुरेशी जी के मकान होते हुए पुराना लाहोटी विलनिक के सामने की गली में होत हुए शर्मा जी केरोसीन के सामने तक भवाना जी झाईवर के सामने सैयद मंजिल से होकर बड़ तक तिवारी जी के मकान से तेली मोहल्ला का समस्त क्षेत्र। भवाना झाईवर के मकान से पश्चिम गौड साहब के आगे ब्रजमोहन सेन के मकान से होते हुए शकील के	

	ब्लॉक 7,8,9 का सम्पूर्ण भाग		सामने हीना फर्नीचर तक।
		8	उत्तर दिशा में तेजाजी मंदिर के सामने वाली होते हुए गाधी जी के मकान होते हुए अरोड़ा जी मकान से होते हुए रोहित वधवा की दुकान होते हुए पुराना हेडपम्प तक का क्षेत्र हरकचंद्र जैन के मकान से रिषीलाल छाबड़ा के मकान से होते हुए मिश्री लाल जी पीछे वाली गली आयल मील से दादी अम्मा लॉज तक।
4	उत्तर में मण्डेसरा बस स्टेण्ड के सामने रास्ते से दादी अम्मा लॉज तक तथा दादी अम्मा लॉज से मिश्री लाल जी के पास कलाली गली से मिश्रीलाल जी के मकान के पीछे नाला तक तथा नाला से मत्स्य विभाग की दिवार के किनारे—किनारे डेम रोड नहर किनारे तक तथा डेम रोड नहर किनारे से मण्डेसरा बस स्टेण्ड तक जिसमें बाजार नं 0 1 व 2 की बस्ती , सेवाराम विलनिक के पास की बस्ती , गुलशन पंडित के पास की बस्ती सम्मिलित है। ब्लॉक 10,11 का सम्पूर्ण भाग	9	उत्तर दिशा में हीना फर्नीचर तक सलीम मास्टर के सामने छबीलदास की चक्की होते हुए पुलिया तक , हीना फर्नीचर की गली से दक्षिणी की ओर अग्रवाल प्रिंटर्स होते हुए काग्रेस कार्यालय तक एवं भैरुलाल जी मकान के सामने वाली गली में होते नाला पार करके गफूर भाई के मकान होते छबीलदास चक्की होते हुए नाला पर करके राजेन्द्र कुमार के मकान होते हुए भैरुलाल जी मकान के सामने वाली गली तक का सम्पूर्ण क्षेत्र।
5	उत्तर दिशा में कलाली वाली गली , पुलिया से संतोष ऑयल मिल होते हुए , रसीद के मकान के आगे मत्स्य विभाग की दिवार होते हुए , थाने के सामने मुनेन्द्र की चक्की के पास होते हुए , थाने के आगे से रावतभाटा गांधी सागर मुख्य मार्ग अग्रवाल प्रिंटिंग प्रेस होते हुए , भवाना ड्राइवर के मकान से कलाली वाली गली पुलिया तक , प्रिंटिंग प्रेस के पास का क्षेत्र , नवीन बालिका स्कूल के पास का क्षेत्र सम्मिलित है। ब्लॉक 12,13,14,15,16 का सम्पूर्ण भाग	10	उत्तर दिशा में लाहोटी हॉस्पीटल के उत्तर में रतन लाल जी के मकान से मोडूलाल के मकान होते भैरुलाल जी मकान की गली होते उत्तर में रोशन लाल के मकान तक का क्षेत्र सम्पूर्ण क्षेत्र लाहोटी हॉस्पीटल से कन्याशाला होते हुए प्रकाश सोनी चाय की दुकान होते हुए इकराम मोहल्ला विरेन्द्र पाल के मकान से स्कूल के सामने से बड़ के पेड़ से पशु चिकित्सालय तक।
6	उत्तर दिशा में मुनेन्द्र की चक्की से रसीद खॉ के मकान से मत्स्य कार्यालय तक , मत्स्य विभाग कार्यालय से डेम रोड होते हुए , खणाई स्कूल के आगे हजारी लाल की चक्की से होते हुए मजिस्ट्रेट निवास होते हुए , मत्स्य निवास के पूर्वी भाग होते हुए , थाने के तरफ जाने वाली रोड के किनारे मुनेन्द्र की चक्की तक जिसमें मजिस्ट्रेट निवास	11	उत्तर दिशा में आर.पी.एस. बड़ के पेड़ से पश्चिम में अशोक के मकान से प्रेम निवास के ऊपर होते हुए मजिस्ट्रेट निवास सर्कल से बड़ के पेड़ तक आर.पी.एस. पुराना पोस्ट ऑफिस से बापना की दुकान का सम्पूर्ण प्रेम नगर रामदेव मंदिर , टेलर एवं प्याउ तक का सम्पूर्ण क्षेत्र।

	के पास की बस्ती , इन्द्रा कॉलोनी , छात्रावास , हरिजन बस्ती में स्थित स्कूल के पास की आबादी , पुराना बीज भण्डार , पुराना सिनेमा के पास की सम्पूर्ण आबादी थाने के आगे वाले टिनशेड की बस्ती , पशु चिकित्सालय व उसके आस-पास की बस्ती सम्मिलित है। ब्लॉक 17,18,19,20 का सम्पूर्ण भाग		
7	उत्तर दिशा में खणाई स्कूल से डेम रोड होते हुए , नहर के किनारे-किनारे डेम तथा डेम से होते हुए , आर.पी.एस. वर्कशॉप के पीछे से होते हुए , एम टाईप के मकान से होते हुए यूनियन कार्यालय , छात्रावास के सामने टिनशेड तक तथा छात्रावास के सामने से खणाई स्कूल तक जिसमें डेम के पास का एम टाईप टिनशेड मकान , खणाई स्कूल के पीछे की बस्ती सम्मिलित है। ब्लॉक 21,22,23,24 का सम्पूर्ण	12	उत्तर दिशा में अशोक के मकान से पश्चिम में इन्द्रिरा कॉलोनी डेम स्कूल चौराहे होते हुए प्रेम निवास तक। मत्स्य प्रशिक्षण केन्द्र डेम रोड तक नारायणी बाई के मकान होते हुए वापस स्कूल तक का क्षेत्र।
8 (अनुसूचित जाति)	सैन्ताप पुलिया से होकर मण्डेसरा जाने वाली सड़क से डेम के पश्चिमी भाग से नदी किनारे-किनारे राजकीय विद्यालय के नीचे तक तथा राजकीय विद्यालय के निचले हिस्से से रावतभाटा राजस्व ग्राम के पश्चिमी सीमा होते हुए , सैन्ताप पुलिया तक के क्षेत्र में बसी समस्त आबादी जिसमें टाउनशिप , आर.ए.पी.पी. कॉलोनी , कॉर्पोरेटिव वलब . तरणताल , रेस्ट हाउस तथा टाउनशिप के बाहर की कच्ची बस्ती , गुर्जर बस्ती तथा राजकीय विद्यालय कुण्डालियों के आस-पास का क्षेत्र सम्मिलित है। ब्लॉक 25,26,27 का सम्पूर्ण भाग	13	उत्तर दिशा में डेम साईड स्कूल से डेम रोड तक नारायणी बाई के मकान होते हुए वापस स्कूल तक आर.एस.ई.बी. चिकित्सालय से नीचे के भाग इज्जत भाई के मकान होते हुए खणाई स्कूल उपरी रोड तक का क्षेत्र।
9 (अनुसूचित जाति)	उत्तर में छात्रावास के सामने वाली रोड से होते हुए दिनेश रेठूदिया के मकान के आग से होते हुए , एम टाईप के मकान के पास से आर.पी.एस. वर्कशॉप के पीछे होते हुए इण्डिया गेट होते हुए , नदी के किनारे मंशापूर्ण माता होते हुए , दुर्गा माता मंदिर होते हुए , दुर्गा माता मंदिर क्षेत्रीय समाज रावतभाटा से मौसम विभाग होते हुए , छात्रावास के सामने टिनशेड के रोड तक जिसमें आर.ए.सी.बी.हॉस्पिटल के पीछे का सम्पूर्ण क्षेत्र , आर.पी.एस पोस्ट ऑफिस , बाल मंदिर स्कूल , तहसील कार्यालय	14	उत्तर दिशा में डेम रोड बाबा रामदेव मंदिर के सामने वाली बस्ती शिव मंदिर डेम गार्डन वाटर बाक्स के मध्य का क्षेत्र एम टाईप क्वाटर का उत्तरी भाग होते हुए दिनेश रेठूदिया पार्श्व द के सामने वाला एरिया नीचे फुटपाट तक का क्षेत्र।

	, एस.डी.ओ. , मुसिफ कोर्ट , आर.पी.एस. गेस्ट हाउस , पुराना कन्या पाठशाला के आस-पास की बस्ती , आर.एस.ई.बी. क्लब सम्मिलित है। ब्लॉक 28,29,30 का सम्पूर्ण भाग				
10	उत्तर दिशा में थाना के आगे रोड से अधिशाषी अभियंता आर.पी.एस. के मकान से होते हुए अधिशाषी अभियंता आर.एस.ई.बी के मकान तक तथा अधिशाषी अभियंता आर.एस.ई.बी के मकान से सिनेमा से डेम रोड जाने वाली रोड हरदेव जी दुध विक्रेता की दुकान से पुलिस थाना तक जिसमें एन.टी.जी., ओ.टी.जी.पी.जी.ई टाईप तथा अधिशाषी अभियंता आर.पी.एस अधिशाषी अभियंता आर.एस.ई.बी. का निवास सम्मिलित है। ब्लॉक 31,32 का सम्पूर्ण भाग	15	उत्तर दिशा में कच्ची बस्ती कुण्डालिया का सम्पूर्ण भाग , भील बस्ती व पक्की बस्ती विक्रम नगर (टाउनशीप) एन.पी.सी.आई.एल. कॉलोनी का सम्पूर्ण क्षेत्र।		
11 (अनुसूचित जाति)	उत्तर में सिनेमा चौराहा के सामने डेम रोड रतन मोची की दुकान से प्रेमलता के निवास पी.जी 31 से दुर्गा माता मंदिर चौराहे के सामने पी.जी. 38 तक तथा पानी की टंकी से होते हुए , तमिलनाडू होटल के सामने से प्रताप सर्किल चौराहे तक तथा प्रताप सर्किल से सिनेमा हॉल के सामने रतन मोची तक जिसमें टी.एच , पी.एच. , एन.टी.जी , एफ टाईप , हाई सैकेण्ट्री स्कूल के पास की आबादी , तमिलनाडू होटल के पास की आबादी सम्मिलित है। ब्लॉक 33,34 का सम्पूर्ण भाग	16	उत्तर दिशा में इण्डिया गेट से मोसम विभाग होते हुए पुराना एसडीएम ऑफिस एवं उसके पास की बस्ती व गेस्ट हाउस के सामने बाल मंदिर उत्तरी रोड पुराना पोर्ट ऑफिस के सिंह साहब के मकान से एसडीएम साहब के मकान तक ।		
12	उत्तर में प्रताप सर्किल से तमिलनाडू होटल के आगे रोड होते हुए , दुर्गा माता मंदिर के पास , कानाराम चारण के मकान के आगे से नदी के किनारे-किनारे चम्पालाल कहार के निवास से आर.ए.पी.पी हॉस्पीटल के पश्चिमी दिवार से होते हुए , रावतभाटा गांधीसागर मुख्य मार्ग होते हुए , प्रताप सर्किल तक जिसमें नदी के ऊपर चारण बस्ती , पश्चिमी दिशा में प्रताप सर्किल से दुर्गा माता मंदिर होते हुए , डेम रोड तक , पश्चिमी दिवार तक पूर्व दिशा में हॉस्पीटल से नदी तक सी-4 हनुमान मंदिर के पास बस्ती , पारस किराना एस.बी.बी. जे. बैंक तथा इसके पास के नव निर्मित कॉलोनी तथा सम्पूर्ण चारण बस्ती का क्षेत्र सम्मिलित है। ब्लॉक	17	उत्तर दिशा में पुलिस थाने से मुकेश राजोरा के मकान तक एवं मुकेश राजोरा के मकान से पीछे दुर्गा प्रकाश वैष्णव से के एल गुप्ता के मकान तक रतन मोची की दुकान से एनटीजी , टी.एच.किशन सिंह के मकान से मोहन लाल शर्मा के मकान पी.एच. तक ।	18	उत्तर दिशा में कमला बाई के मकान होते हुए भंवर सिंह भाटी के मकान होते हुए जी.डी.मेहता के मकान से सीता देवी के मकान तक प्रेमचन्द मोयल से लेकर लेहरू के मकान होते हुए समरथमल जी जैन से प्रेमलता मैंगी होते हुए मोर्य जी तथा पुरा सिंह के मकान तक।

	35,36,37का सम्पूर्ण भाग		
13	उत्तर में आर.ए.पी.पी. हॉस्पीटल से चम्पालाल कहार के मकान नदी किनारे होते हुए , ई.एस.एल. कॉलोनी नीचे पूर्वी दिवार होते हुए , सुभाष सर्किल तक तथा सुभाष सर्किल से हॉस्पीटल तक जिसमें ई.एस.एल. टाईप टू ,टाईप थ्री के समस्त मकान , आर.ए.पी.पी हॉस्पीटल ,ई.एस.एल. लेब सम्मिलित है। ब्लॉक 38,39,40 का सम्पूर्ण भाग	19	उत्तर दिशा में माताजी के मंदिर से कानाराम जी चारण पार्षद के मकान होते हुए बड़ के पेड का निचला भाग भंवर लाल चारण के मकान होते हुए हरिन्द्र सिंह कृषि फार्म होते हुए बृजमोहन राठौर कृषि फार्म , चम्पालाल कृषि फार्म के पास का क्षेत्र ।
14 (अनुसूचित जाति)	उत्तर दिशा में—स्कूल नं० 2 के पास एच.1 बी , 49–54 से हैवी वाटर कॉलोनी की दीवार होते हुए पंडित ज्यूस सुभाष सर्किल से ई.एस.एल. के पूर्वी भाग होते हुए नदी किनारे तक तथा नदी के किनारे—किनारे होते हुए चर्च तक एवं आर.ए.पी.पी. कॉलोनी गेट नं० 2 से शिव मंदिर के सामने चौराहे से स्कूल नं० 2 के पास एच1 बी , 49–54 तक जिसमें एन.टी.सी. गेट के सामने कच्ची बस्ती एवं एन.टी.सी. के सामने का बाजार क्षेत्र , मेवाड गेस्ट हाउस , नर्सरी के पास की आबादी ए टाईप , बी टाईप , एस—१ बी व एच—१ ए के आशिक आबादी सम्मिलित है। ब्लॉक 41,42,43,44 का सम्पूर्ण भाग	20	उत्तर दिशा में बड़ले से प्रेमसिंह चौहान के मकान से पीरुलाल के मकान स रामलाल चारण के मकान से बालाराम चौराहा रोड होते हुए हनुमान मंदिर तक नये ब्लाक बैंक वाटर सप्लाई से ई.एस.एल.कॉलोनी तकईएसएल गेट के ऊपर दिवारी के सहारे से सी 1 , सी 25 व आर.ए.पी.पी. हॉस्पीटल से कॉपरेटिव तक
15	उत्तर दिशा में स्कूल नं० 4 से आर.ए.पी.पी. डिस्पेन्सरी नं० 4 तक एवं डिस्पेन्सरी नं० 4 से एनटीसी गेट नं० 2 होते हुए कोटा गांधी सागर मुख्य मार्ग के किनारे किनारे गेट नं० 3 तक होते हुए स्कूल नं० 4 तक जिसमें इसके बीच टाईप-३ , टाईप-४ , एच 1 बी का आंशिक भाग व स्कूल नं० 4 के पास की सीनियर एवं ज्युनियर हॉस्टल एकिसस बैंक वाली कलस्टर का क्षेत्र सम्मिलित है। ब्लॉक 45,46,47,48,49 का सम्पूर्ण भाग	21	उत्तर में आर.ए.पी.पी. हॉस्पीटल से चम्पालाल कहार के मकान नदी किनारे होते हुए , ई.एस.एल. कॉलोनी नीचे पूर्वी दिवार होते हुए , सुभाष सर्किल तक तथा सुभाष सर्किल से हॉस्पीटल तक जिसमें ई.एस.एल. टाईप टू ,टाईप थ्री के समस्त मकान,आर.ए.पी.पी हॉस्पीटल ,ई.एस.एल. लेब सम्मिलित है।
16	उत्तर दिशा में डिसपेंसरी नं० 4 के सामने पानी की टंकी से स्कूल नं० 4 के पास से होते हुए कलस्टर के पास के क्वाटर , नं० टाईप 5 /32 खण्डाला से पानी की टंकी होते हुए आर.ए.पी.पी. अणुतारा कॉलानी के उत्तरी एवं पूर्वी अंतिम दिवार से आर.ए.पी.पी. के चारभुजा के पास की दिवार के किनार किनारे सामुदायिक भवन के पास गेट नं४ होते हुए गेट	22	उत्तर दिशा में फिदा हुसैन की चक्की से मैन रोड होते हुए जोधपुर मिछान भण्डार की गली टावर के पास पुराना एल्फा स्कूल से चक्की तक का पीछे का एरिया व चर्च बस्ती , चर्च के कोने से टावर के पास सीसी रोड होते हुए अमर सिंह के मकान से होते हुए अल्फा विद्यालय तक का सम्पूर्ण भाग ।

	नं० ३ से होते हुए स्कूल नं० ४ के आगे से डिसपेंसरी नं० ४ के आगे पानी की टंकी तक जिसमें आर.ए.पी.पी. खण्डाला का टाईप -४ सामुदायिक भवन , तरणताल , आर.ए.पी.पी. टाईप-०५ के समस्त मकान तथा अणुतारा कॉलोनी इसमें सम्मिलित है। ब्लॉक ५०,५१,५२ का सम्पूर्ण भाग		
17	उत्तर दिशा में देवनारायण मंदिर के सामने चौराहे दक्षिणी भाग कलस्टर के सामने क्वाटर टाईप ५/३२ के आगे से खण्डाला में स्थित पानी की टंकी की ओर जाने वाली सड़क से दीवार के किनारे-किनारे उत्तरी भाग की सीमा तक तथा आर.ए.पी.पी. खण्डाला के उत्तरी भाग का आखरी दीवार से देवनारायण मंदिर के आगे चौराहे तक जिसमें आर.ए.पी.पी. खण्डाला के टाईप-२ ,टाईप-३ के समस्त मकान सम्मिलित है। ब्लॉक ५३,५४,५५,५६,५७ का सम्पूर्ण भाग	23	उत्तर दिशा में पानी की टंकी बी टाईप होते हुए एच १ के चार ब्लॉक ए टाईप से एस.बी.बी.जे. एटीएम से बाहर एन.टी.सी. बंद गेट के पास का अंतिम उपर व शिव मंदिर के सामने के ए १ ए से एचडब्ल्यू के बंद गेट होते हुए मेवाड गेस्ट हाउस होते हुए एन.टी.सी. गेट के बाहर पंडित स्वीट दुकान तक व शिव मंदिर क्लब के सामने से होते हुए स्कूल नं.४ से होते हुए सीनियर हॉस्टल के समाने से होते हुए गेट नं.२ वाले रास्ते से शिव मंदिर तक का दक्षिण भाग।
18	उत्तर दिशा में डिसपेंसरी नं० ४ के सामने पानी की टंकी से होते हुए गुर्जर बस्ती के पास यूनियन कार्यालय से होते हुए नाला किनारे-किनारे शॉपिंग सेंटर नं० २ के पीछे होते हुए हनुमान मंदिर से शिव कॉलोनी के आगे होते हुए क्लब के पीछे से होते हुए एनटीसी डिसपेंसरी नं० ४ के पास पानी की टंकी तक जिसमें आर.ए.पी.पी. टाईप-२ के समस्त मकान शॉपिंग सेंटर नं०२ सम्मिलित है। ब्लॉक ५८,५९,६०,६१,६२,६३ का सम्पूर्ण भाग	24	उत्तर दिशा में शिव मंदिर क्लब से होते हुए गेस एजेन्सी वाला पेड होते हुए डिस्पेंसरी के पास मेंटीनेंस ऑफिस होते हुए क्लब तक व गेट नं. ३ से गांधी सागर रोड स्कूल नं. ४ दक्षिणी रोड जिसमें जुनियर सीनियर हॉस्टल ट्रेनिंग तथा गेट नं २ के पास के स्कूल के वाले दीवार के सहारे सम्पूर्ण क्षेत्र टाईप- III , ६ , ७ व १७ व स्कूल नं. ४ से पश्चिम कोने से एटीएम एक्सेस बैंक वाली लाईन होते हुए गेस एजेन्सी सड़क पूर्वी क्षेत्र से होते हुए गार्डन का पूर्वी कोने से स्कूल नं०४ तक का क्षेत्र।
19	उत्तर दिशा में गुर्जर बस्ती के उत्तरी भाग से हैवी वाटर कॉलोनी की बाउण्ड्री स्कूल नं० २ के पास से हनुमान मंदिर से नाला किनारे-किनारे यूनियन कार्यालय से होते हुए आर.ए.पी.पी. कॉलोनी दीवार के किनारे-किनारे होते हुए देवनारायण मंदिर के पास से गुर्जर बस्ती के उत्तरी भाग होते हुए हैवी वाटर कॉलोनी बाउण्ड्री तक जिसमें स्कूल नं० २ ,गुर्जर बस्ती का सम्पूर्ण क्षेत्र , एच१ बी ,एच१ए का आंशिक भाग , एच२ बी का सम्पूर्ण क्षेत्र , गैस गोदाम	25	उत्तर दिशा में एटीएम के सामने रोड से पश्चिम से डिस्पेंचरी तक का क्षेत्र व डिस्पेंचरी न० ४ के सामने की गली के सभी क्वाटर , खण्डाला के सहारे २ पानी टंकी का सम्पूर्ण क्षेत्र व गेट न० ४ से होते हुए सामुदायिक भवन के पास प्लेग्राउण्ड कलस्टर वाटर ट्रीटमेंट स्कूल नं ४ स्वीमिंग पुल का क्षेत्र ।

	के पास की बस्ती समिलित है। ब्लॉक 64,65,66 का सम्पूर्ण भाग		
20	उत्तर दिशा में स्कूल नं03 से कॉपरेटिव के पीछे से पश्चिमी भाग रोड से होते हुए हैवी वाटर कॉलोनी मैनगेट से रावतभाटा गांधी सागर मैनरोड होते हुए पंडित ज्यूस से दीवार किनारे—किनारे होते हुए स्कूल नं0 2 के पास गेस्ट हाउस के आगे रोड से स्कूल नं0 3 तक जिसमें शॉपिंग सेंटर, पुलिस चौकी, गोपाल कैटिंग के पास का मकान एवं के/टाईप के समस्त मकान तथा बी का सम्पूर्ण क्षेत्र समिलित है। ब्लॉक 67,68 का सम्पूर्ण भाग	26	उत्तर दिशा में सम्पूर्ण अणु तारा कॉलोनी व देवनारायण मंदिर से टाईप-II से टाईप- III, ब्लॉक नं. 60, 61, 62, 56, 62 तक पूर्व का क्षेत्र।
21 (अनुसूचित जाति)	उत्तर में स्कूल नं03 के पास सिविल ऑफिस के सामने से मानव मंदिर के पास हॉस्टल के आगे हैवी वाटर की दीवार होते हुए, हैवी वाटर कॉलोनी, पानी की टंकी के पास सी-टू कार्यालय होते हुए फेज-2 बस स्टेण्ड के पास से कोटा रावतभाटा मुख्य मार्ग हैवी वाटर कॉलोनी दीवार होते हुए, मैन गेट होते हुए कॉपरेटिव के पीछे से स्कूल नं0 3 के पास सिविल ऑफिस तक जिसमें ए रोड, बी रोड, ब्लॉक का आंशिक भाग समिलित है। ब्लॉक 69,70 का सम्पूर्ण भाग	27	उत्तर दिशा में अणु प्रताप कॉलोनी टाईप- III, ब्लॉक नं0 , 57 , 58 , 53 , 54 , 55 , 49 , 50 , 51 व टाईप- III अणु तारा 47,48,43,44,41,42,35,36,32,33,34 तक का सम्पूर्ण क्षेत्र।
22	उत्तर दिशा में हैवी वाटर कॉलोनी की उत्तरी पश्चिमी सीमा से मानव मंदिर के पास हॉस्टल तक एवं हॉस्टल से सिविल ऑफिस स्कूल नं0 3 गेस्ट हाउस, एनटीसी स्कूल नं0 2 के पास रास्ते से हैवी वाटर की बाउण्ड्री होते हुए हैवी वाटर कॉलोनी की उत्तरी भाग की अंतिम सीमा तक जिसमें ब्लॉक के शेष मकान, स्कूल नं0 3 सिविल ऑफिस, गेस्ट हाउस के पास का मकान समिलित है। ब्लॉक 71,72 का सम्पूर्ण भाग	28	उत्तर दिशा में टाईप- III 59 , 52 , 46 , 45 , 40 , 37 , 31 , 30 , 38 , 39 व टाईप- III 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 का सम्पूर्ण क्षेत्र।
23	उत्तर दिशा में नया बाजार मुर्गी फार्म एवं तलाई से नया बाजार होते हुए रावतभाटा गांधी सागर मुख्य मार्ग आर्य समाज के पास मेट ऑफिस गुरुद्वारा होते हुए मानव मंदिर ग्राउण्ड से सी-टू ऑफिस से हैवी वाटर की दीवार किनारे—किनारे उत्तरी भाग होते हुए तलाई तक जिसमें मानव मंदिर एवं मानव मंदिर के पीछे की आबादी, जैन औषधालय,आर्य समाज	29	उत्तर दिशा में अणुकिरण टाईप—टाईप— II 1 से 10 ब्लॉक , 12 से 17 व कलस्टर नं0 2 से होते हुए ब्लॉक नम्बर 59 से शिव मंदिर से ब्लॉक नम्बर 58 का सम्पूर्ण क्षेत्र व 18 ए से 25 एल तक का सम्पूर्ण क्षेत्र।

	, पुराना सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के पीछे की बस्ती नया बाजार मुर्गी फार्म तक का क्षेत्र सम्मिलित है। ब्लॉक 73,74,75,76 का सम्पूर्ण भाग		
24	उत्तर दिशा में कोटा रावतभाटा मुख्य मार्ग फकरूददीन के मकान से रामटेकरी हनुमान मंदिर मुख्य मार्ग होते हुए पी.डब्ल्यू.डी. कार्यालय के आगे होते हुए सिनेमा हॉल के आगे से आर्य समाज के पास मुख्य मार्ग महालक्ष्मी साड़ी सेंटर से होते हुए नया बाजार कॉलोनी के बीच भाग होते हुए मुर्गी फार्म तलाई के पास होते हुए मुख्य मार्ग फकरूददीन के मकान तक जिसमें सिनेमा हॉल एवं सिनेमा हॉल के पास की बस्ती रामटेकरी हनुमान जी के मंदिर के पास की बस्ती, मॉडन पब्लिक स्कूल के पास की बस्ती नया बाजार क्षेत्र सम्मिलित है। ब्लॉक 77,78,79,80,81 का सम्पूर्ण भाग	30	उत्तर दिशा में रोड नं.4 के दोनों ओर के ब्लॉक टाईप-II, 26 ए से 34 एल तक व रोड नं.5 के दोनों ओर के ब्लॉक टाईप-II, 35 ए से 42 एल तक व रोड नं.6 के बाउण्ड्री वॉल के पास नाले के यूनियन ऑफिस तक का क्षेत्र टाईप-II, 43 से 50 एल तक व 46 से 49 तक का सम्पूर्ण क्षेत्र।
25	उत्तर में 132 केवी से रावतभाटा राजस्व ग्राम की अंतिम सीमा से कोटा रावतभाटा मुख्यमार्ग होते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के पास गुर्जर बस्ती जाने वाली सड़क होते हुए ईदगाह के पास से आर्दश नगर, रामपुरा मोहल्ला होते हुए मस्जिद के पास गोल्डन जेरोकस होते हुए मुख्य मार्ग के किनारे—किनारे बुद्ध बिहार मंदिर के पास फकरूददीन के मकान के पास से होते हुए तलाई तक एवं गुर्जर बस्ती के पश्चिम भाग होते हुए 132 केवी रावतभाटा राजस्व ग्राम की अंतिम सीमा तक जिसमें बुद्ध बिहार मंदिर के पास की बस्ती, कुम्हार मोहल्ला, कोली मोहल्ला, जोधपुर मोहल्ला, मस्जिद के पास की आबादी, रामपुरा मोहल्ला एवं आर्दश नगर का आंशिक क्षेत्र, बी.एड कॉलेज ईदगाह, ईट भट्टे के पास का क्षेत्र, बालाजी नगर, श्री गणेश नगर तथा हॉस्पीटल सम्मिलित है। ब्लॉक 82,83,84,85,86,87 का सम्पूर्ण भाग	31	उत्तर दिशा में गुर्जर बस्ती का सम्पूर्ण क्षेत्र, शिव मंदिर के पास नाले के सहारे एच-2 बी की पूरी लाइन 66 मकान व उत्तर दिशा में स्कूल नं.2 के पास से होते हुए हनुमान मंदिर के पास यूनियन कार्यालय के साथ स्कूल नं.2 का उत्तरी पूर्वी भाग एवं एच-1ए, एच-1बी का सम्पूर्ण क्षेत्र।
		32	उत्तर दिशा में गैस मैदान से होते हुए स्कूल नं.2 के सामने एच वन ए एच वन बी का सम्पूर्ण क्षेत्र व शॉपिंग सेंटर व उत्तर दिशा में स्कूल नं.3 से कॉपरेटिव के पीछे से पश्चिमी भाग रोड से होते हुए हैवी वाटर

			कॉलोनी मैनगेट से रावतभाटा गांधी सागर मैनरोड होते हुए पंडित ज्यूस से दीवार किनारे—किनारे होते हुए स्कूल नं. 2 के पास गेस्ट हाउस के आगे रोड से स्कूल नं. 3 तक जिसमें शॉपिंग सेंटर , पुलिस चौकी , गोपाल कैटिंग के पास का मकान एवं के /टाईप के समस्त मकान तथा बी का सम्पूर्ण क्षेत्र सम्मिलित है।
33			उत्तर में स्कूल नं.3 के पास सिविल ऑफिस के सामने से मानव मंदिर के पास हॉस्टल के आगे हैवी वाटर की दिवार होते हुए , हैवी वाटर कॉलोनी , पानी की टंकी के पास सी—टू कार्यालय होते हुए फेज—2 बस स्टेप्ड के पास से कोटा रावतभाटा मुख्य मार्ग हैवी वाटर कॉलोनी दिवार होते हुए , मैन गेट होते हुए कॉपरेटिव के पीछे से स्कूल नं0 3 के पास सिविल ऑफिस तक जिसमें ए रोड , बी रोड , ब्लॉक का आंशिक भाग सम्मिलित है।
34			उत्तर दिशा में हैवी वाटर कॉलोनी की उत्तरी पश्चिमी सीमा से मानव मंदिर के पास हॉस्टल तक एवं हॉस्टल से सिविल ऑफिस स्कूल नं0 3 गेस्ट हाउस , एनटीसी स्कूल नं0 2 के पास रास्ते से हैवी वाटर की बाउण्ड्री होते हुए हैवी वाटर कॉलोनी की उत्तरी भाग की अंतिम सीमा तक जिसमें ब्लॉक के शेष मकान , स्कूल नं0 3 सिविल ऑफिस , गेस्ट हाउस के पास का मकान सम्मिलित है।
35			उत्तर दिशा में मानव मंदिर से हैवी वाटर गेट चकरी से उत्तरी की तरफ कच्ची बस्ती होते हुए एवं डब्ल्यू पी कॉलोनी की दिवार के सहारे व आर्य समाज से बैंक ऑफ बडौदा मानव मंदिर शब्द प्रताप रामपाल का मकान गंगूजी का मकान से मुर्गी फार्म तक का सम्पूर्ण क्षेत्र
36			उत्तर दिशा में मानव मंदिर से आर्दश विद्या मंदिर होते हुए पी पी सिंह का मकान पोलट्री फार्म होते हुए हैवी वाटर दिवार तक व त्रिलोक सिंह के मकान से मुर्गी फार्म पीपी सिंह का मकान रामपाल को मकान होते हुए त्रिलोक सिंह के मकान तक का सम्पूर्ण क्षेत्र।
37			उत्तर दिशा में के.एम. प्रोविजन नया

		बाजार होम्योपेथिक विलनिक भोजराज गुर्जर, जग्गी के मकान के सामने पुरानी सब्जी मंडी वधवा टेण्ट हाउस व कल्याण के मकान से छाबडा वकील से बल के सामने होते हुए मार्डन स्कूल से कालरा सरदार के मकान से कल्याण के मकान तक व मोहन गुर्जर से मोली सिस्टर के मकान होते हुए दिक्षित के मकान होते हुए नसीम बानों के मकान से बीलू के मकान के सामने का क्षेत्र का सम्पूर्ण क्षेत्र।
38		उत्तर दिशा में नेशनल शुज, पीडब्ल्यूडी ऑफिस से अजमेरा हलेकट्रीकल्स अजीज के मकान होते हुए जग्गी के मकान के सामने का भाग व अजीज के मकान से मनोज मनोज लाईट से फकरु कबाड़ी के ऊपर के.वी.शर्मा के मकान होते हुए हनुमान टेकरी अयोध्या भवन तक एवं आप-पास का सम्पूर्ण क्षेत्र।
39		उत्तर दिशा में बीएड कॉलेज के सामने से नाले की पुलिया होते हुए मस्जिद होते हुए ऑक्सफोर्ड एकेडमी नियाज होटल के सामने व नियाज होटल के सामने का क्षेत्र कुम्हार मोहल्ला व फखरु से कुम्हार मोहल्ला का सम्पूर्ण क्षेत्र।
40		उत्तर दिशा से राजस्व गांव की अंतिम सीमा जी एस एस 132 के.वी. गणेश नगर होते हुए ईट भट्टों, बीएड कॉलेज के आस पास का क्षेत्र व फकरु के मकान से फुटपाथ के.वी. शर्मा जी के मकान के पीछे से जम्बू जैन के मकान के नीचे का भाग च बुद्ध बिहार का सम्पूर्ण क्षेत्र, धन्ने के बाडे तक का सम्पूर्ण क्षेत्र।

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी
(उपखण्ड मजिस्ट्रेट) रावतभाटा

अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका रावतभाटा

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।